

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  
(मिनिरत्न कंपनी)  
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited  
(A Miniratna Company)  
(A subsidiary of Coal India Limited)

## जनसम्पर्क विभाग / Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486 889/ Post- Singrauli Colliery, Dist.- Singrauli, M.P. PIN-486 889.

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: [pro.ncl@coalindia.in](mailto:pro.ncl@coalindia.in) website : [www.nclcil.in](http://www.nclcil.in)

एनसीएल/जनसम्पर्क/प्रेस विज्ञप्ति/2017-18

दिनांक - 17.06.17

### प्रेस विज्ञप्ति

एनसीएल मुख्यालय में 'जीएसटी हेल्प एवं वेंडर रजिस्ट्रेशन डेस्क' का शुभारंभ

निदेशक (वित्त) श्री पी. एस. आर. के. शास्त्री ने किया शुभारंभ

30 जून तक जीएसटी का सिंगल विंडो समाधान देगा डेस्क

आगामी 1 जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को लागू किए जाने की कड़ी में भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने शनिवार को 'जीएसटी हेल्प एवं वेंडर रजिस्ट्रेशन डेस्क' का शुभारंभ हुआ। एनसीएल के निदेशक (वित्त) श्री पी एस आर के शास्त्री ने एनसीएल मुख्यालय में बतौर मुख्य अतिथि इस डेस्क का शुभारंभ किया। वेंडर्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने सहित जीएसटी से जुड़ी हर जानकारी इस डेस्क के जरिये प्राप्त कर सकते हैं। यानी यह डेस्क जीएसटी के मामले में सिंगल विंडो समाधान देगा और आगामी 30 जून तक कार्यरत रहेगा।

जीएसटी हेल्प डेस्क का शुभारंभ करते हुए कंपनी के निदेशक (वित्त) श्री पी. एस. आर. के. शास्त्री ने कहा कि देश जल्द ही जीएसटी के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के अब तक से सबसे बड़े बदलाव का गवाह बनेगा। ऐसे में एनसीएल में जीएसटी से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी और रजिस्ट्रेशन के लिए इस हेल्प डेस्क की

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  
(मिनिरातना कंपनी)  
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited  
(A Miniratna Company)  
(A subsidiary of Coal India Limited)

## जनसम्पर्क विभाग / Public Relations Department



**CIN- U10102MP1985GOI003160**

**An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company**

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486 889/ Post- Singrauli Colliery, Dist.- Singrauli, M.P. PIN-486 889.

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: [pro.ncl@coalindia.in](mailto:pro.ncl@coalindia.in) website : [www.nclcil.in](http://www.nclcil.in)

शुरुआत की गई है। एनसीएल की वेबसाइट nclcil.in पर भी जीएसटी से संबंधित हर जानकारी दी गई है और हर इस बारे में हर अद्यतन जानकारी को एनसीएल की वेबसाइट पर लगातार अपडेट किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि वेंडर्स एनसीएल के सभी क्षेत्रों (एरिया) में भी वहां के एरिया फाइनेंस मैनेजर (एएफएम) से संपर्क कर जीएसटी से जुड़े अपने किसी भी तरह की जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

एनसीएल मुख्यालय में बनाए गए जीएसटी हेल्प एवं रजिस्ट्रेशन डेस्क की अगुआई सहायक प्रबंधक (वित्त) श्री हैमत सिंधवानी कर रहे हैं और वेंडर्स अपनी किसी भी जिज्ञासा के लिए इस डेस्क को संपर्क कर सकते हैं।

**फोटो कैप्शन 1.** एनसीएल मुख्यालय में शनिवार को जीएसटी हेल्प एवं रजिस्ट्रेशन डेस्क के शुभारंभ के अवसर पर निदेशक (वित्त) श्री पी. एस. आर. के. शास्त्री (बीच में बैठे हुए) एवं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वेंडर।

**2.** एनसीएल मुख्यालय में शनिवार को जीएसटी हेल्प एवं रजिस्ट्रेशन डेस्क के शुभारंभ के अवसर पर निदेशक (वित्त) श्री पी. एस. आर. के. शास्त्री, एनसीएल के अधिकारी-कर्मचारी एवं वेंडर।

**(जनसम्पर्क अधिकारी)**